

केन्द्रीयविद्यालय,एन.डी.ए.,पुणे-23
आवधिक परीक्षा (एक)[2018-19]

विषय - हिन्दी

अंक - 40

- कक्षा -दसवीं

अवधि 90 -मिनट

निर्देश :*सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

*सुलेख एवं शुद्धता का ध्यान दें ।

प्रश्न 1-निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक: पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

आज नव निर्माण के गीत गाएँ
माँ भारती का घर आँगन सजाएँ
हम सब मिल ऐसा देश बनाएँ
जिसके सब बच्चें पढ़ने जाएँ
पाएँ सब पुस्तक स्लेट
कोई कभी न सोए भूखे पेट ।
सदा मिले उन्हें बड़ों का प्यार
कोई न छीने अधिकार ।
कभी न लुटे सपनों का संसार
मेहनत से हो सपने साकार ।
बच्चे खेले ऐसे खेल
सदा रहे। उनमें गहरा मेल ,
वे सब मिल ऐसा देश बनाएँ
घर। घर में जहाँ खुशहाली छाए-
समता संपन्नता के गीत गाएँ
देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए ।

1. कवि किसके नव निर्माण की बात कह रहा है? 1
- 2.कवि ने बच्चों को किस प्रकार के खेले खेलने की प्रेरणा दी और क्यों? 2
3. कविता में कवि ने किसके अधिकार न छीनने की बात कही है और क्यों? 1
- 4-कवि देश को किस रूप में देखना चाहता है? 1

खंड ख

प्रश्न न-02- निर्देशानुसार कीजिए----

- (क) वह मुझसे कहता है कि आओ । (वाक्य का प्रकार बताइए) 1
-) ख वह बाजार गया और केले लाया।(1 (सरल वाक्य बनाइए)
- (ग) मैंनेस्कूटर चलते हुए बच्चे को देखा । (मिश्र वाक्य में)1

प्रश्न न03 –रेखांकित पदों का परिचय दीजिए----

(क) इस घर में कौन रहता है?1

(ख) वह छात्र बहुत चतुर है | 1

(ग) दिल्ली भारत की राजधानी है | 1

(घ) मैं रोज सवेरे घूमने जाता हूँ। 1

प्रश्न न04- निम्नलिखित गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छाँटकर लिखिए -

बेटे के क्रिया-कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी । किंतु ज्योंही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना । इधर पतोहू रो-रोकर कहती- मैं चली जाऊँगी तो बुढ़ापे में कौन आप के लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लु पानी भी देगा मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए । लेकिन भगत का निर्णय अटल था । तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूँगा-यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती ?

क- बालगोबिन भगत ने बेटे का क्रिया-कर्म कैसे किया ? 1

ख- श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर भगत जी ने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया ? 2

ग -भगत जी की पतोहू की क्या इच्छा थी - 2

प्रश्न न 0 5- निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 2+2+2=6

(क) सेनानी न होते हुए भी चश्मेवाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे ?

(ख) फ़ादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी ?

ग--"। घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, बिना विचार"

प्रश्न न0 6- निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

हमारै हरि हरिल की लकरी

मन क्रम वचन नद नदन उर यह दृढकरिपकरी ।

जागतसोवत स्वप्न दिवस निसिकान्हकान्हजकरी ।

सुनत जोग लागत है ऐसौज्यौकरुईककरी ।

सुतौब्याधिहमकौ ले आए देखी सुनी न करी ।

यह तौ सूर तिनहिलैसौपौजिनके मन चकरी ।

(क) गोपियाँ कृष्ण को कब -कब याद करती 1

(ख) गोपियो को योग का संदेश कैसा लगा ? 2

(ग) गोपियाँ अपने हरि की तुलना हरिल की लकड़ी से क्यों करती हैं ? 2

.प्रश्न 7 निम्न-प्रश्नों में से किसी दो प्रश्न के संक्षेप में उत्तर दीजिए |2x2=4

- (1) उद्धवके व्यवहार की तुलना किस-किस से की गई है?
- (2) गोपियों द्वारा उद्धव भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है ?
- (3) लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन तर्क दिए ?
- (4) लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या परंपरा बताई ?

प्रश्न .--8 किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए 3

- (क) 'माता का अंचल' में माता बच्चे को किस युक्ति से खाना खिलाती है?
- (ख) 'माता का अंचल' के आधार पर बताइए की विपदा के समय भोलानाथ माँ की शरण क्यों लेता है?
- (ग) बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं ?

प्रश्न न - 09 अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश में पुणे भ्रमण के लिए आमंत्रण पत्र लिखिए । 5

=====